

CIN: L74999DL2003GOI118633

RVNL/SECY/STEX/2020

12th September, 2020

BSE Limited

1st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building, PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort,

Mumbai-400001

Scrip Code: 542649

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai - 400051

Scrip Code: RVNL

Sub: Publication of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2020

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached a copy of unaudited financial results (Standalone & Consolidated) of RVNL for the quarter ended 30th June, 2020, as published in Newspapers (English & Hindi).

14999DL2003GO111863

This is for your Information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Rail Vikas Nigam Limited

(Kalpana Dubey)

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. F7396

Encl: As above

LOOKING FOR MORE

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

E-TENDER NOTICE

Online Request for Proposal For - "Appointment of Third Party Auditor (TPA) for Madhya Pradesh State Wide Area Network". Interested eligible bidders may view/download the Tender document from www.mptenders.gov.in. First time users of this portal will be required to register online with

CHIEF GENERAL MANAGER

M.P. STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LTD

State IT Centre, 47 A, Arera Hills, Bhopal-462011

Phone: (0755) 2518602, 2518632, Fax: 2579824

E-mail: marketing@mpsedc.com

Website: mpsedc.com

30.06.2020

(Unaudited)

1,616.53

445.66

353.45

352.13

1300.00

2.72

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

R.O: 321, S.M. Lodha Complex, Udaipur- 313001 PH: 0294-2561882, EMAIL: info@srghousing.com

CIN NO: L65922RJ1999PLC015440, WEBSITE: www.srghousing.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

Notes: a)The above results of the Company have been reviewed and recommended by the Audi Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on September 10, 2020.

b) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter ended June

30, 2020 filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results for the guarter ended June

30, 2020 are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Company's

M.P. Madhyam/98431/2020

30.06.2019

(Unaudited)

1,643.42

554.54

415.62

415.08

1300.00

3.20

For SRG Housing Finance Limited

Vinod K. Jain,

Managing Director, DIN: 00248843

(Rs. In Lakhs)

Prev. Year Ender

31.03.2020

(Audited)

7,260.18

2249.12

1797.04

1794.04

1300.00

6185.58

13.82

payment of registration charges.

Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road. New Delhi-110001

Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the First Quarter ended on 30th June, 2020 (₹ in lakhs)

R R Financial Consultants Limited CIN: L74899DL1986PLC023530

Consolidated

Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
Total income from operations (net)	209.89	381.53	485.11	1652.42
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	1.02	10.33	28.80	31.99
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.02	10.33	28.80	31.99
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.48)	1.45	26.58	18.48
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		(0.67)	(0.37)	0.54
Equity Share Capital	1106.94	1106.94	1106.94	1106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	3390.89
Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	0.03 0.03	(0.01) (0.01)	0.21 0.21	0.12 0.12

Key Standalone Unaudited Financial Results

for the First Quarter ended on 30th June, 2020 (₹ in lakhs) Standalone Quarter Quarter Quarter **Particulars** ended ended ended ended 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.202 (Unaudited) (Audited) Unaudited Audited) 11.62 22.03 9.73 58.76 4.35 (2.11)0.52 Profit before tax (6.36)4.35 (6.61)(2.08)0.25 rofit after tax

- The above is an extract of the consolidated detailed format of Unaudited Financial Results for the First Quarter ended June 30th, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com
- The figures for the quarter ended 30th June 2020 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31st March 2020 and the published unaudited year to date figures up to nine months ended 31st December 2019, which were subject to limited review

For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Place: New Delhi Date: 10th September, 2020

Rajat Prasad Managing Director Din: 00062612

Authorised Officer, Canara Bank

(Rs. in Lakhs except EPS)

3.03,087.91

3.61

3.61

Vedanta seeks to boost funds for India delisting by \$600 m

SUVASHREE GHOSH, BIJOU **GEORGE & ANURAG JOSHI** Mumbai, September 11

VEDANTA RESOURCES IS in talks with banks for a further \$600 million to finance the delisting of its Indian unit, according to people with knowledge of the matter.

The London-based commodities conglomerate has already secured \$3.15 billion in loans and bonds to buy back the shares it doesn't hold in Vedanta.

The company would use the extra funds to cover any shortfalls for the proposed offer of the delisting, the people said, asking not to be identified because the discussions are private.

The company has been buffeted by volatile commodity prices because of weakened demand amid the coronavirus pandemic.



Shareholders will be given the option to offer a price to tender their shares back to founder Anil Agarwal who's seeking to simplify his investments

Shareholders will be given the option to offer a price to tender their shares back to founder Anil Agarwal

who's seeking to simplify his investments. The firm is in the final stages of arranging the additional funding lines as it awaits approval from the Securities and Exchange Board of India to go private, the people said. A spokesman for Vedanta declined to comment.

Shares in Vedanta erased losses after Bloomberg reported the funding plans and the stock was trading 1% higher at 2:12 p.m in Mumbai.

The additional \$600-million loan could be for three to six months and would be backed by dividend income or cash accrued from Vedanta's cash-rich subsidiary Hindustan Zinc, the people said. Details of the deal are yet to be finalised and the plans could change, they said.

—BLOOMBERG

Particulars

Equity Share Capital

Place: Udaipur

Date: 10.09.2020

Total income from operations (Net)

Net Profit for the period before Tax (before and

after Exceptional and/or Extraordinary items#

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after

Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown

Exceptional and/or Extraordinary items)

in the balance sheet of previous year)

Total Comprehensive Income for the period

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic &

Govt proposes consumer right rules for quality supply of electricity

FE BUREAU New Delhi, September 11

TO ENSURE QUALITY of power supply to consumers, the Union power ministry has proposed a set of performance parameters for electricity distribution companies (discoms),

failing which these entities will have to pay compensation for power users. To that end, the ministry has come out with

a draft version of Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and has sought stakeholders' comments on the proposal by the end of this month. As per the new rules,

state electricity regulators will have to notify updated 'standards of performance' for discoms and specify compensation amounts that

dards are not met. The parameters for which consumers would be eligible for compensation include

consumers would receive if the stan-

unsatisfactory supply duration, number of power cuts, time taken by discoms to provide new connections and replace defective meters. "It is the right of the consumer

to have minimum standards of service for supply of electricity from the distribution licensee as per the rules laid down," the draft of the rules said. Union power minister RK Singh had told FE in March that the government was planning to include consumer rights in the regulatory framework, improving upon the current, laxly-implemented 'standards of service' outlined by state power regulators.

The Centre has proposed that new connections and modification of existing connections should be provided by discoms within seven days of receiving requests for consumers. For other municipal areas the time allotted in 15 days and for rural consumers, it will have to be done within 30 days. Discoms will

South Eastern Railway's freight loading increases 8.7%

FE BUREAU Kolkata, September 11

SOUTH EASTERN RAILWAY (SER) on Friday said its freight loading performance increased by 8.7% year-on-year in August after touching the last year's level in July.

In the first quarter this fiscal, SER's freight loading declined by 23.8% y-o-y to 31.34 million tonne (MT) from 41.12 MT in the corresponding period last fiscal. In July freight loading stood at 14.38 MT against 14.44 MT in the year-ago period.

"In July our freight loading performance was almost same compared to the last year. In August it was 8.72% higher at 14.58 MT, which was greater than our target. We are maintaining the recovery trend. This is very encouraging sign forus," SER general manager Sanjay

Kumar Mohanty said. "This (financial) year our target for freight loading was around 175 MT. Last month we increased the target to 176.51 MT. Given the increasing trend of loading, we are confident that SER will achieve this loading target as demands for goods and materials are rising," Mohanty said.

have to make provisions that such requests can be done online, and the progress can be tracked through webbased systems. If the consumers

with a delay of more than 60-days, they will be eligible for a rebate of up to 5%, as approved by respective state power

receive electric

As per the

new rules, state

regulators. All new connections will

electricity have to be given regulators will have smart or regular to notify updated pre-paid meters. 'standards of Consumers with performance' for smart pre-paid discoms and meters will have specify compento be given access to their sation amounts usage data on a consumers would real-time basis, receive if standards and they should are not met also have the option of pur-

> meters by themselves. State electricity regulators will have

> > 2. Diluted:

Place: Jabalpur

chasing

the

to allow self-meter reading by consumers, and photographs of such readings sent through mobile or email would be deemed valid.

केनरा बैक Canara Bank

सिडिकेटबैंक

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

website at www.srghousing.com.

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical (whichever is applicable)* possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 30.09.2020, for recovery of below mentioned due to the Secured Creditor from respective Borrower/s, Surety/ies. (For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website i.e. www.canarabank.in)

Sr. No.	Name of the Borrowers/Sureties	Due Amount	Description of Property/ies	Reserve Price	EMD	Branch Name Address/Contact
1.	39, Keshav Kunj, Govindpuram, Distt. Ghaziabad.	Lakhs Seventy Eight Thousand Four Hundred Fifty and Paise	EMT of Commercial Shop, bearing No. 3, Ground Floor, without roof rights, area 14.00 sq.yards (11.70 sq.mtrs.), constructed on Plot No. 37, related to Khasra No. 1546MI, situated at Keshav Kunj Colony, Hadbast Village Raeespur, Ghaziabad, Owned By Neelam Kumari Bounder as under: East: Rasta 18 Feet wide, West: Shop No.1, North: Stairs, South: Shop No.2.	Rs. 6,75,000/- (Six Lakh Seventy Five Thousand only)	Rs. 67,500/- (Sixty Seven Thousand Five Hundred only)	Delhi Public School, Meerut Road, Ghaziabad, Ph: 011-2828365
2.	Ved Singh, Farrukhnagar Road, Post Nistoli, Ghaziabad (UP) 201006.	Five Lakhs Thirty Six Thousand Forty Eight and Paise Eighty Five	All that part and parcel of Land and Building Area 5 Biswa Pukhta in Khasra No. 29M, situated at Village Nistauli Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, Owned by Satya Pal Singh S/o Sh. Ved Singh Bounded: East: Land of Mahendra Singh and others, West: Sh. Om Ice Factory, North: Road, South: Property of Rampal.	Rs. 72,00,000/- (Seventy Two Lakh Only)	Rs. 7,20,000/- (Seven Lakh Twenty Thousand only)	Branch Farrukh Nagar, Distt. GZB, UP Phone 0120 - 2682224

Regional Office Ghaziabad

Date: 11.09.2020

CIN: L24231MP1979PLC049375 Regd. Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road,

Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001 Extract of Un - Audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2020

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd.

[See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (Rs.In lakhs) Year Corresponding Quarter Preceding Qtr. ended quarter ended in ended ended the previous year **Particulars** No. 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 Unaudited Audited Audited Unaudited Refer Note 5) Total Income from Operations 2,997.99 4,570.27 4,152.67 12903.74 Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and / or (247.18)(57.49)(81.91)(910.87)Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or (247.18)(57.49)573.21 (255.75)Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or (247.18)184.29 573.21 (13.97)

Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for (254.02)157.82 572.91 (41.34)the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 6 | Equity Share Capital 8,948.27 8,948.27 8,948.27 8,948.27 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited 595.93 Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -1. Basic: (0.02)

Notes: The above statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10 September 2020. The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the above statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020 and an unmodified opinion has been issued. The same have been filed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. and is also available on the Company's website at www.cebbco.com.

During the previous year, the Company had forfeited 0.0001% Non-Convertible Cumulative Redeemable Preference Shares due to non payment of unpaid calls. These preference shares were issued to erstwhile promoters in the year 2014-15 amounting to Rs. 2,000 lakhs of which only Rs. 1,300 lakhs was paid up. Out of the paid up amount, Rs.655.12 lakhs was classified as liability component of compound financial instruments as under the requirement of Ind AS 109. Pursuant to the forfeiture, the Company had recognized a gain of Rs. 655.12 lakhs as 'Exceptional Items' in the financials results of the quarter ended 30 June 2019 and for the year ended 31 March 2020.

The Company is mainly engaged in the business of metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicles and rail freight wagons. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute one single reportable segment. Accordingly, disclosures under Ind AS 108, Operating Segments are not required to be made.

On account of the spread of COVID-19, the Government of India had imposed a complete nation-wide lockdown on 25 March 2020 leading to shut down of the Company's manufacturing facilities and logistics operations. Since then the government of India has progressively relaxed lockdown conditions and has allowed most of the industries and businesses to resume operations in a phased manner. During the quarter, the Company has resumed its manufacturing facilities and is currently in the process of further scaling up its operations. Further, since the lockdown was still in force for a significant period of the reported quarter, the Company's operations were impacted however, management believes that the impact seems to be temporary in nature and the pandemic is not likely to have an impact on the recoverability of the carrying value of its assets as at 30 June 2020. The management is continuously and closely monitoring the developments and possible effects that may result from the current pandemic on its financial condition, liquidity and operations and is actively working to minimize the impact of this unprecedented situation. As the situation is still continuously evolving, the eventual impact may be different from the estimates made as of the date of approval of these financial results.

The figures of the preceeding guarter ended 31 March 2020, as reported in these financial results, are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year ended 31 March 2020 and published year to date unaudited figures upto the end of the third quarter of that finacial year.

Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with current period classification / disclosures. For and on behalf of the Board

> Abhishek Jaiswal Whole Time Director & C.E.O.

रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता (A Government of India Enterprise)

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED (A Govt. of India Enterprise)

Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi -110066

CIN: L74999DL2003GOI118633, Email:investors@rvnl.org EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

	Particulars	Standalone				Consolidated				
SI.		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended	
No.		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1.	Revenue from Operations	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97	
2.	Other Income	5,595.03	5,657.92	5,267.99	26,557.86	5,597.05	5,661.33	5,270.75	24,568.45	
3.	Total Income	2,96,678.02	4,27,725.41	2,89,832.14	14,79,615.83	2,96,680.04	4,27,728.82	2,89,834.90	14,77,626.42	
4.	Profit/(Loss) (Before Tax)	18,169.01	24,875.07	19,618.95	99,084.03	17,952.74	29,879.23	22,830.75	95,431.66	
5.	Net Profit/(Loss) for the period) *	14,315.22	19,730.31	15,004.11	78,985.97	14,098.59	24,734.15	18,215.41	75,332.27	
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive profit/(loss) and other comprehensive income for the period)	14,291.98	19,568.36	14,863.07	78,781.02	14,075.35	24,572.88	18,074.37	75,128.00	
7.	Equity Share Capital	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	

* There was no exceptional item during the period

0.69

0.69

0.95

0.95

8. Other Equity

Basic

Diluted

Earnings per share (EPS)

(0.02)

 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting. held on 11.09.2020. As required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Statutory Auditors have conducted a limited review of the above financial results for the quarter ended 30th June, 2020.

0.72

0.72

2,41,474.58

3.79

3.79

0.68

0.68

The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

3. The above statement includes results for the quarter ended 31st March, 2020 being the balancing figure between audited figures in respect of full financial year and year to date unaudited figures up to the third guarter of the relevant financial year.

4. The above statement is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The complete format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on Company's

For and on behalf of the Board of Directors

Pradeep Gaur Chairman & Managing Director DIN:07243986

0.87

0.87

1.19

1.19

Dated: 11.09.2020

Place : New Delhi

website www.rvnl.org.

New Delhi

DIN-07936627

Date: 10-09-2020 financialexp.epap.in

मानसून सत्र में पेश करने के लिए 23 नए विधेयक सूचीबद्ध

नई दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा)

सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश करने के लिए 23 नए विधेयक सूचीबद्ध किए हैं, जो 11 संबंधित अध्यादेश का स्थान लेंगे।

सरकार ने 18 दिनों के सत्र के दौरान जिन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने की योजना बनाई है, उनमें से एक स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम से जुड़े कदमों से संबंधित अध्यादेश है। इस अध्यादेश में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए तैनात स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा और उन्हें परेशान करने के कार्यों को गैर जमानती अपराध करार दिया गया है और इसमें अधिकतम सजा सात वर्ष कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसमें डॉक्टरों, नर्सों, आशाकर्मियों सहित स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का प्रावधान है।

एक अन्य अध्यादेश 1 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए सांसदों के वेतन में 30 फीसद कटौती करने से जुड़ा है और इसके स्थान पर भी एक विधेयक लाया जाएगा। इससे प्राप्त राशि का उपयोग कोरोना विषाणु के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा। किसान उत्पाद कारोबार व वाणिज्य (प्रोत्साहन एवं सुविधा) विधेयक 2020 को हाल में जारी एक अध्यादेश के स्थान पर लाया जाएगा, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जहां किसानों और कारोबारियों को अपने उत्पाद की बिक्री और खरीद में अपनी पसंद की स्वतंत्रता हो, ताकि उन्हें वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माध्यमों से उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसमें किसानों को बाधा मुक्त व पारदर्शी वातावरण में उत्पादों के संबंध में अंतर राज्यीय कारोबार और वाणिज्य की सुविधा हो।

सदन में जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 भी पेश किया जाएगा, जिसमें इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्तमान उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी का भी प्रस्ताव किया गया है।

लोकसभा की बुलेटिन के अनुसार, निचले सदन में वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच चर्चा व पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। इसमें वर्ष 2016-17 के अधिशेष अनुदान की मांगों पर भी चर्चा और मतदान कराया जाएगा।

कर्नाटक: तीन पुजारियों की हत्या कर चार नकदा लंकर फरार

बंगलुरु, 11 सितंबर (भाषा)।

स्थान : नई दिल्ली

कर्नाटक के मांडया में एक प्रसिद्ध मंदिर में चोरों ने कथित तौर पर तीन पुजारियों की हत्या कर दी और मंदिर से नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने बृहस्पतिवार रात अरकेश्वर मंदिर के पुजारियों की चाकू मार कर हत्या कर दी और 'हंडी' (दान पेटी) से नकदी लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि चोरों ने दान पेटी में रखे सिक्के नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि जब बदमाश मंदिर परिसर में घुसे, पुजारी सो रहे थे। पुजारी मंदिर परिसर में ही रहते थे।

घटना की सूचना पाकर पुलिस महानिरीक्षक सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पुजारियों की हत्या पर शोक व्यक्त किया और उनके परिजन को पांच-पांच लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट किया कि यह बहुत विचलित कर देने वाला है कि मांड्या के अरकेश्वर मंदिर के पुजारी गणेश, प्रकाश और आनंद की चोरों ने हत्या कर दी। उन्होंने कहाँ कि मारे गए मंदिर के पूजारियों के परिवार को पांच लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

सार्वजनिक घोषणा भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के

विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2) के अनुरूप) के मामले में एस.बी.ओ. एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

(CIN: U74999DL2018PTC328002) के हितधारकों के ध्यानार्थ विनियमन ३१ (२) भारतीय दिवाला और ऋण अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम २०१६ के विनियमन 12 (3) के अनुसार, एतदवारा सूचित किया जाता है कि एस.बी.ओ. एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में ("कॉपेरिट देनदार") के हितधारकों की सूची 04 सितम्बर 2020 को परिसमापक द्वारा तैयार की गई है, जिसे माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (कोर्ट—II) के पास 10 सितम्बर, 2020 को दायर की गई है। चूंकि कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की कोई कार्यात्मक वेबसाइट नहीं है, इसलिए, परिसमापक द्वारा स्वीकार किए गए दावों की राशि का पूरा विवरण दिखाने वाले हितधारकों की सूची, जिस हद तक दावे सुरक्षित / असुरक्षित हैं परिसमापक के कार्यालय **ई –103, जी.के. एन्क्लेव–1, नई दिल्ली–110048** में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कॉर्पोरेट देनदार के हितधारकों की सूची के संबंध में प्रश्नों को irpepoch@gmail.com पर संबोधित किया जा

अभिषेक आनंद परिसमापक -एस.बी.ओ. एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) दिनांक: 12.09.2020

पंजीकृत सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/10077 पताः ई -103, जी.के. एन्क्लेव-1, नई दिल्ली-110048 ईमेलः irpepoch@gmail.com

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण नई दिल्ली पीठ-।। के समक्ष

कम्पनी याचिका सं. 97/एनडी/2020 फोरटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - याचिकादाता कम्पनी सूचना का प्रकाशन

सूचित हों कि रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख प्रत्येक) के 5,775 (पांच हजार सात सौ पचहत्तर) इक्विटी शेयरों में विभाजित रू. 57,75,00,000 / – (रू. सत्तावन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की इक्विटी शेयर पूंर्ज को घटाकर रू. 1,00,000 / — (रू. एक लाख प्रत्येक) के 2,383 (दो हजार तीन सौ तिरासी) इक्विटी शेयरों मे विभाजित रू. 23,83,00,000 / – (रू. तेईस करोड़ तिरासी लाख मात्र) तथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार रू 29,15,00,000 / — (रू. उन्तीस करोड़ पंद्रह लाख मात्र) के प्रतिभूति प्रीमियम खाते का शेष करने की पुष्टि हेतु एक याचिका माननीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ—।। के समक्ष दिनांक 31 जुलाई, 2020 को प्रस्तुत की

गई थी और 09 सितम्बर, 2020 को सुनवाई की गई थी। व्यक्तिगत लेनदारों को सूचनाएं जारों की जा चुकी हैं। कम्पनी द्वारा तैयार की गई लेनदारों की सूची निरीक्षण के लिए कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में सोमवार से शक्रवार के बीच सभी कार्यदिवसों को पर्वा. 11.00 बजे से यदि कम्पनी के किसी भी लेनदार को याचिका अथवा लेनदारों की सची में विवरण के संबंध में कोई आपित्ति है

तो उस आपत्ति को (समर्थन दस्तावेजों के साथ) उसके नाम एवं पता और उसके अधिकृत प्रतिनिधि. यदि कोई है, के नाम एवं पता का विवरण के साथ अंधोहस्ताक्षरी को 1ए, वंदना बिल्डिंग, 11, टाल्सटाय मार्ग दिल्ली—110001 के पते पर, इस सूचना की तिथि से तीन माह के भीतर, भेजा जा सकता है। यदि उपरि वर्णित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है. तो लेनदारों की सची में दर्ज प्रविष्टियां कम्पनी की शेयर पूंजी कम करने हेत् उपरोक्त याचिका के तहत सभी कार्यवाहियों में, सहीं मानी जाएगी। यह भी नोट करें कि सुनवाई हेतू 14 दिसम्बर, 2020 की तारीख निर्धारित की गई है, जिस तारीख को न्यायाधिकरण द्वारा याचिका की सुनवाई की जाएगी। यदि कोई लेनदार सुनवाई में भाग लेने का इच्छुक है, तो

उसको एक अनुरोधपत्र अपनी आपत्तियों, यदि कोई, के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। तिथि : 11 सितम्बर, 2020 अधिकृत हस्ताक्षरी स्थान : नई दिल्ली फोरटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

|आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित) CIN: L65110TH2014PLC097792



हस्ता./-

उर्वशी अग्रवाल

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वॉ तल, हैरिग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031 टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022 प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा सम्पर्क नम्बर-7838324723

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तिये के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तिये की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदुद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट** लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की दिनेश कुमार, वीणा दिनेश, हरिचंद (ऋणधारक-सह-ऋणधारक (कों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 8.5.2019 को आईएनआ 4968596.57 की वसूली के लिये 29.9.2020 को ''जैसा है जहां है''. ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कछ

भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। (आरक्षित मूल्य आईएनआर 2700,000/- तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 270000/- होगी।)

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति सं. ई-99, खसरा नं. 221 जो ग्राम बाबरपुर, गली नं. 1, पूर्वी बाबरपुर, प्रेम गली, ईलाका शाहदरा, दिल्ली

में स्थित है. का सभी भाग तथा हिस्सा बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कुपया ध्यान रहे कि उक्त सुचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तिये

की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

तिथि: 8.9.2020

प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित

के चार दिन बाद एक आतंकवादी का शव नाले में मिला

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 सितंबर।

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में हुई मुठभेड़ में घायल जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी का शव सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के नजदीक एक नाले से बरामद किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'पुलिस और सेना ने नौसेना के कमांडो की मदद से गुरुवार

रात एक नाले से आतंकवादी का शव बरामद किया है। बडगाम जिले के कावूसा में सात सितंबर को हुई मुठभेड़ में गोली लगने के बाद आतंकवादी नाले में कूद गए थे। चार दिन की तलाश के बाद सुरक्षाबलों को एक आतंकवादी का शव मिला।

आतंकवादी की पहचान अकीब अहमद लोन के तौर पर की गई है, वह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अगलार इलाके का रहने वाला था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा

बलों को नाले में तलाश के बाद एक बैग मिला है जिमसें कुछ हथियार और गोलाबारूद भरा था। बैग में 13 हथगोले, 14 चाकू, 25 मोबाइल फोन आदि भी थे।

जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादी गिरफ्तार : सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कृपवाडा जिले से आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री बिहार में 16 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत

नई दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य बिहार में आगामी 10 दिनों में 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। सूत्रों ने बताया कि विकास की

इन विभिन्न परियोजनाओं से आधारभृत संरचना बेहतर होगी

और बिहार के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं एलपीजी पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, नमामि गंगे के तहत सीवेज निस्तारण संयंत्र, जलापूर्ति योजना, नदी के तटों का विकास करने की परियोजना, नई रेलवे लाइन, रेलवे पुल, विभिन्न खंडों का विद्युतीकरण और राजमार्ग व पुलों के निर्माण से संबंधित हैं।

JINDAL STAINLESS (HISAR) LIMITED



EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINAL

						(₹ in crore excep	ot per share data			
			Standalone				Consolidated			
Sr. Vo.	Particulars	For the quarter ended		For the year ended	For the qu	arter ended	For the year ended			
		30 June 2020	30 June 2019	31 March 2020	30 June 2020	30 June 2019	31 March 2020			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total income from operations	742.85	2,147.28	8,339.69	852.41	2,372.35	9,379.00			
2	EBITDA*	39.70	237.07	861.77	42.79	252.64	935.17			
3	Net Profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extra ordinary items)	(70.97)	116.34	382.85	(77.46)	123.70	450.68			
4	Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(65.53)	127.64	401.56	(112.16)	151.59	496.69			
5	Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(49.72)	84.00	320.33	(92.69)	104.68	392.87			
6	Total comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(49.95)	83.75	319.54	(92.76)	105.57	406.56			
7	Paid up equity share capital (face value of ₹ 2/- each)	47.19	47.19	47.19	47.19	47.19	47.19			
8	Other equity	1000000	P750/951	1,789.06	DOMESTIC CO.		2,223.82			
)	Earning per share (EPS) (face value of ₹ 2/- each)									
	a) - Basic	(2.11)	3.56	13.58	(3.93)	4.44	16.65			
	b) - Diluted (EPS for the quarter not annualised)	(2.11)	3.56	13.58	(3.93)	4.44	16.65			

*EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of guarterly financial results are available on the company's website: (www.jshlstainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).
- The financial results of the company for the guarter ended 30 June 2020 have been reviewed by the audit committee and approved by the board of directors at their respective meetings held on 11 September 2020 and the limited review of the same has been carried out by the auditors.
- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- Previous period/year figures have been regrouped/ reclassified/recast, wherever necessary, to make them comparable

Place: Hisar Date: 11 September 2020

By Order of the Board of Directors For Jindal Stainless (Hisar) Limited Jagmohan Sood Whole Time Director



(CIN: L27205HR2013PLC049963) Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) Tel: (01662) 222471-83 | Fax: (01662) 220499 Email Id. for Investors: investorcare.jshl@jindalstainless.com Website: www.jshlstainless.com

डाण्डयन आवरसाज बक

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत स्व. श्री झम्मन चौधरी (अर्थात् ऋणधारक/मार्टगैजरों तथा गारंटरों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिये मांग सूचना)

श्रीमती राजेश कुमारी-एस/ओ स्व. श्री झम्मन चौधरी के कानूनी उत्तराधिकारी श्री बलवीर सिंह पुत्र सामर्न्त श्री मनजीत सिंह-एस/ओ स्व. श्री झम्मन चौधरी के कानूनी उत्तराधिकारी लाल, निवासी: 58, प्रॉफेसर श्री रितिक सिंह-एस/ओ स्व. श्री झम्मन चौधरी के कानूनी उत्तराधिकारी कॉलोनी, बीएसए कॉलेज के सभी निवासी: 2273, अर्जुन पुरा, दीग गेट, मथुरा, उत्तर प्रदेश निकट, मथुरा

प्रिय महोदय/महोदया, विषय: इंडियन ओवरसीज बैंक, एरिंग शाखा में स्व. श्री झम्मन चौधरी (अर्थात् मृत ऋणधारक) की साख सुविधाएं 1. स्व. श्री झम्मन चौधरी-हमारे बैंक के मृत ऋणधारक ने हमारी एरिंग शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की थीः विशिष्ट बकाये के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

	सुविधा का प्रकार	लिमिट	ब्याज दर (अधिशेष ब्याज	18.05.2020 को ब्याज (अधिशेष ब्याज सहित) एवं
				रेस्ट्स कुल देयताएं* (रु. में)
1	शुभगृह हाउसिंग लोन्स	रु. 7.00 लाख	9.45%	रु. 5,64,462.00/- (रुपये पाँच
1	(051403351500001)	(रुपए सात लाख मात्र)		लाख चौंसठ हजार चार सौ
8				बासठ मात्र)
- 1				

* अनुबंधित दरों/रेस्ट्स पर आगे के ब्याज के साथ जो ऊपर वर्णित तिथि से भूगतान की तिथि तक देय होगा। क्रम सं. 4 के अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित गारन्टरों ने गारंटी तिथि 19.5.2015 निष्पादित की है तथा उसके द्वारा स्वीकृत ब्याज, चार्जेज के साथ रु. 7,00,000/- (रुपये सात लाख मात्र) की कुल साख सीमाओं के लिये ऋणधारकों द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक को तत्काल अथवा किसी भी समय मांग करने पर सभी धनों की अदायगी करने तथा सभी देयताओं एवं दायित्वों को निष्पादित करने का निष्पादित करने का वचन दिया है। यह साख सुविधाएं मृतक ऋणधारक के नाम में स्थित नीचे वर्णित परिसम्पत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभृत हैं।

आप में क्रम सं. 4 के अंतर्गत वर्णित गारन्टरों ने ऊपर दी गई साख सविधाओं के लिये व्यक्तिगत गारंटी दी है। मृतक ऋणधारक ने उनके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से समय-समय पर यहाँ ऊपर वर्णित अपनी देयताओं

2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभृतियों का विवरण इस प्रकार है:

प्रतिभूति (बंधक) का नाम प्रतिभृतियों का विवरण

एमबीडीए, मथुरा से खरीद की 11जी-1, सेक्टर 2, भूतल, रुक्मणि विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, गई आवासीय फ्लैट एलआईजी तहसील एवं जिला मथुरा में स्थित एमबीडीए मथुरा से खरीदी गई आवासीय हाउस की गिरवी फ्लैट एलआईजी हाउस। यह मकान मृत ऋणधारक के स्वामित्व में है। फ्लैट के उत्तर में: एलआईजी हाउस बी-11/जी2, फ्लैट के दक्षिण में: 9मी. चौड़ा रोड, फ्लैट के पूर्व में: खुला एवं सामृहिक स्थान, फ्लैट के पश्चिम में: एलआईजी हाउस ब्लॉक नं. 10 (एस/एफ), फ्लैट का क्षेत्रफल 6.33m* 6.75 एम=42.73 वर्ग एम.

3. स्वीकत शर्तों के अनुसार मुलधन ऋण/ ब्याज के भगतान में ऊपर नामित ऋणधारकों द्वारा की गई चक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 30.9.2020 को आपकी ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।

4. क्यूं कि क्रम सं. 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभृतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद्द्वारा आप क्रम सं. 1,2 एवं 3 के अंतर्गत को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित आगे के ब्याज 9.45% की दर से के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 5,64,462/- की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।

का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/ गारंटर हमे स्वीकृत रूप में मासिक रेस्ट्स के साथ मिश्रित आगे के ब्याज 9.45% की दर से के साथ 18.05.2020 को कल रु. 5.64.462/-की ऋण/ साख सविधाओं के अनसार बैंक की बकाया राशि का भगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा हम मार्टगेजर/गारंटर जिन्होंने सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्त्तनीय गैर-कृषि प्रतिभृतियां दी हैं के लिए गारंटी को रद्द करते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का

. ऊपर नामित क्रम सं. 4 के अंतर्गत गारंटर ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भगतान/ गारंटी

भुगतान करें। कुपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है। 5. हम. पनः मत ऋणधारकों, के उत्तराधिकारी नाम श्रीमती राजेश कमारी, श्री मनजीत सिंह तथा श्री रितिक सिंह (बैंक की सर्वश्रेष्ठ जानकारी/अभिलेख के अनसार क्योंकि इसे काननी उत्तराधिकारी की पृष्टि के रूप में नहीं माना जा सकता है) तथा गांरटरों जिन्होंने सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्त्तनीय गैर-किष भिम दी है. को सचित करते हैं कि भगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपर्ण राशि के भगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम में निहित किसी या सभी अधिकारों का

. कपया ध्यान रहे कि काननी रूप से ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भगतान करने के लिए पथक अथवा संयक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

8. कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भूगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढती रहेगी।

. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमित प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जर्माने का प्रावधान है।

10. क्रम सं. 4 के अंतर्गत वर्णित गारंटरों नाम श्री बलवीर सिंह ने उक्त ऋणधारकों की ऋण को प्रतिभत करने के लिए व्यक्तिगत गांरटी दी है और इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी मांग के अनुसार बकाए का भगतान करने के लिए ऋणधारकों पर दबाव डालें क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित हमारे बकाए की वसुली के लिए हमें कानून के अनुसार साथ-साथ आपके विरुद्ध कारवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त है। साथ ही, हम आप सभी को यह भी सुचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बुझकर

चुककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चुक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसली

के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है। 12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।

13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

स्थानः एरिंग, तिथिः 16.6.2020 इंडियन ओवरसीज बैंक, प्राधिकृत अधिकारी



रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता (A Government of India Enterprise)

रेल विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली – 110066 सीआईएन: L74999DL2003GOI118633, ईमेल: investors@rvnl.org

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु (पृथक्कृत एवं समेकित) अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में सिवाय ईपीएस)

	विवरण	पृथक्कृत			समेकित				
क्र.		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त
सं.	Idata	30,06,2020	31,03,2020	30,06,2019	31,03,2020	30,06,2020	31,03,2020	30,06,2019	31,03,2020
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से राजस्व	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97
2.	अन्य आय	5,595.03	5,657.92	5,267.99	26,557.86	5,597.05	5,661.33	5,270.75	24,568.45
3.	कुल आय	2,96,678.02	4,27,725.41	2,89,832.14	14,79,615.83	2,96,680.04	4,27,728.82	2,89,834.90	14,77,626.42
4.	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर पूर्व)	18,169.01	24,875.07	19,618.95	99,084.03	17,952.74	29,879.23	22,830.75	95,431.66
5.	(अवधि हेतु शुद्ध लाभ/ (हानि)*	14,315.22	19,730.31	15,004.11	78,985.97	14,098.59	24,734.15	18,215.41	75,332.27
6.	अवधि हेतु कुल सम्मिलित आय (अवधि हेतु सम्मिलित लाभ / (हानि) तथा अन्य सम्मिलित आय)	14,291.98	19,568.36	14,863.07	78,781.02	14,075.35	24,572.88	18,074.37	75,128.00
7.	इक्विटी शेयर पूंजी	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01
8.	अन्य इक्विटी	7047	-	20	2,41,474.58	¥3	(20)	1083	3,03,087.91
9.	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)								
	मूल	0.69	0.95	0.72	3.79	0.68	1.19	0.87	3.61
	तनुकृत	0.69	0.95	0.72	3.79	0.68	1.19	0.87	3.61

' अवधि के दौरान कोई अपवाद मद नहीं थी

नोट:

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा उनकी दिनांक 11-09-2020 को सम्पन्न बैठक में किया गया था। जैसाकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत अपेक्षित है, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु उपरोक्त वित्तीय परिणामों का सीमित पुनरीक्षण किया गया है।

2. उक्त वित्तीय परिणाम भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित तदधीन विरचित संबद्ध नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 33 तथा वर्तमान में लागू अन्य मान्य लेखांकन पद्धतियों और नीतियों के अधीन अधिसूचित है।

3. उपरोक्त विवरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु आंकड़े सम्मिलित हैं, जो पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा संबंधित वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक वर्षाद्यतन प्रकाशित अलेखापरीक्षित आंकड़ों के बीच संतुलनकारी आंकड़े

4. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर उपलब्ध है।

कते एवं हिते रेल विकास निगम लिमिटेड

प्रदीप गाँड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 07243986

स्थान: नई दिल्ली

तिथि : 11-09-2020

www.readwhere.com